

## भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद, दो के खिलाफ मुकदमा, एक गिरफ्तार



जौनपुर : जिले में दो स्थानों पर हुई छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद हुई हैं। टीम ने मानक के विपरीत व नकली के संदेह पर आठ दवाओं का नमूना जांच के लिए भेजा है। दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर एक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन (एफडीए) और पुलिस की संयुक्त टीम ने दो दिन के अभियान में की है। पकड़ी गई दवाओं की कीमत सात लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।

जनपद में नकली व मानकविहीन दवाओं की बिक्री की सूचना पर खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग की टीम सक्रिय हो गई थी। शुक्रवार की शाम सूचना पर औषधि निरीक्षक चंद्रेश दुबे व थानाध्यक्ष रामपुर ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने रामपुर बाजार में दवाएं लेकर जा रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से पूर्व में पकड़ी गई नकली दवा के बैच की एंटीबायोटिक दवा के साथ ही अन्य दवाएं पकड़ी गईं।

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम संदीप दीक्षित निवासी भानापुर रामपुर बताया। आरोपित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर चालान न्यायालय भेज दिया गया। दो बोरियों में पकड़ी गई दवाओं की कीमत लगभग दो लाख बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपित की निशानदेही शनिवार को दो और स्थानों पर सघन छापेमारी की गई। टीम ने नेवद्विया थाना क्षेत्र के भवानीगंज बाजार स्थित दो दुकानों से अधोमानक के संदेह पर छह दवाओं का नमूना लिया। वहीं जलालपुर थाना क्षेत्र के बीबनमऊ गांव निवासी आरोपित अच्छे लाल नाविक के घर व दुकान से तीन बोरी नकली व अन्य दवाएं बरामद की गईं।

पकड़ी गई दवाओं की कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपित के विरुद्ध जलालपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। छापेमारी करने वालों में औषधि निरीक्षक वाराणसी अमित बंसल, औषधि निरीक्षक भदोही सौरभ दुबे और औषधि निरीक्षक जौनपुर चंद्रेश दुबे के साथ रामपुर व जलालपुर की पुलिस रही।

औषधि निरीक्षक चंद्रेश दुबे ने बताया कि रामपुर व बीबनमऊ में पकड़ी गई दवाओं के आठ नमूना लिया गया है। जांच में नकली मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान अनवरत जारी रहेगा।